

सीएसआईआर- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं. 35/4/2011-राभा

दिनांक : 22.01.2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : संस्थान में लागू राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं को वर्ष 2019-20 के लिए लागू करना ।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 04.12.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए लागू की गई निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाओं को वर्ष 2019-20 (1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक) के लिए पुनः लागू किया जा रहा है :

1. सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना ।
(का.ज्ञा.सं. 35/4/2011- राजभाषा (योजना-1), दिनांक 22.01.2020)
2. सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रोत्साहन भत्ता योजना।
(का.ज्ञा.सं.35/4/2011- राजभाषा (योजना-2), दिनांक 22.01.2020)
3. सीएसआईआर-सीरी हिंदी श्रुतलेख (डिक्टेशन)प्रोत्साहन योजना(अधिकारियों के लिए)
(का.ज्ञा.सं. 35/4/2011- राजभाषा (योजना-3), दिनांक 22.01.2020)
4. सीएसआईआर-सीरी वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना।
(सं. 35/4/2011- राजभाषा (योजना-4), दिनांक 22.01.2020)
5. सीएसआईआर-सीरी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।
(का.ज्ञा.35/4/2011- राजभाषा (योजना-5), दिनांक 22.01.2020)

योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी हिंदी सूचना पट्ट एवं संस्थान की वेबसाइट पर दी गई है। इन योजनाओं के हेतु प्रविष्टियों का आमंत्रण जुलाई/अगस्त 2020 में किया जाएगा। आवेदन करते समय योजनाओं के प्रपत्र संस्थान की वेब साइट पर प्रपत्र/FORMS सेक्शन के अंतर्गत "राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं के प्रपत्र/Proformae for Hindi Incentive Schemes" नामक लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

(रमेश बौरा)
हिन्दी अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, निदेशक कार्यालय
2. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. सभी क्षेत्र समन्वयकों/विभागाध्यक्षों/अनुभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ सहकर्मियों को इस संबंध में सूचित कर दें।
4. सभी सूचना पट्ट